

186

M. 15/1/18

प्रेषक,

दिनेश कुमार पुनेठा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 04 जनवरी 2018

विषय:- मा10 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून द्वारा दिनांक 09.12.2017 को के केदारनाथ धाम में गतिमान पुनर्निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1367/ नि0स0-मु0स0/2017, दिनांक 27.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा10 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून द्वारा दिनांक 09.12.2017 को केदारनाथ धाम में गतिमान पुनर्निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया है। ।

2- इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2017 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक करते हुए अद्यतन निरीक्षण आख्या से शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

संख्या: / III (3) / 2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 26.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व मुख्य सचिव उत्पल कुमार प्रातः 10:10 बजे केदारनाथ पहुँचे। हैलिपेड से केदारनाथ मंदिर तक मा0 मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यो का पैदल स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ मंदिर परिसर को 16 फीट बढ़ाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। साथ ही कहा कि मंदिर से सर्किल प्वाइंट तक बन रहे पैदल मार्ग पर पौराणिक शैली के पत्थर का प्रयोग किया जाएगा ताकि धाम अधिक सुशोभित होगा व पर्यटक आकर्षित होंगे।

मा0 मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी यात्राकाल में श्रद्धालुओं को और अधिक बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक घोड़े-खच्चर व पैदल यात्रियों के लिए अलग-अलग दो रास्ते बनाए जाएंगे। साथ ही सरस्वती नदी पर बन रहे बाढ़ सुरक्षा कार्य व मंदाकिनी नदी का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने निम की कैंटीन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही धाम में कार्य कर रहे मजदूर, कर्मचारियों के हाल-चाल भी पूछे। कहा कि पुनर्निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को किसी प्रकार की कमी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि केदारनाथ में संचालित पुनर्निर्माण कार्य पर्यावरण के अनुरूप किए जा रहे हैं। साथ ही कार्यदायी संस्था को मन्दिर परिसर के पीछे स्थित पत्थरों के आस-पास सफाई करने के निर्देश दिए। कहा कि इन पत्थरों को हटाया न जाए बल्कि इस प्रकार रूपांतरित किया जाए जिससे श्रद्धालु आस-पास घूम सके, योगाभ्यास कर सके।


इस मौके पर पुलिस अधीक्षक पीएन मीना, अधि0अभि0 लोनिवि मनोज दास, डॉ गैरोला, विशाल वर्मा, प्रभारी अधिकारी देवानंद, तहसीलदार रुद्रप्रयाग श्रेष्ठ गुनसोला, निम के देवेन्द्र बिष्ट सहित पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ मौजूद थे।

8- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई कि लछमोली-केदारनाथ मार्ग का सुधारीकरण PWD द्वारा युद्धस्तर पर किया जाए ताकि तीर्थ यात्रियों को पैदल चलने में कम असुविधा हो।

(कार्यवाही-मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड/जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।)

9- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री केदारनाथ धाम क्षेत्र अन्तर्गत साधू-सन्तों द्वारा गुफाओं में साधना करने के दृष्टिगत स्थान गरुड़चट्टी के आस-पास 4 गुफाओं हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को स्थल चयन कराते हुए साधू-सन्तों की तपस्या हेतु बेहतर बनाने के निर्देश दिये गये।


(कार्यवाही- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।)


(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

कार्यालय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
संख्या:1367/नि0स0-मु0स0/2017
दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ✓ 1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव-मा0 मंत्री जी पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. प्रधानाचार्य, एन.आई.एम., केदारनाथ।
7. पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग।
8. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य अभियंता, सिंचाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रतिनिधि, जे.एस.डब्लू. ग्रुप, हाल केदारनाथ।


(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

